




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP01296411440396N
 Certificate Issued Date : 13-Aug-2015 01:44 PM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0101560494849733N
 Purchased by : BUILDIA CONSTRUCTION PVT LTD THROUGH DIRECTOR
 Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
 Property Description : LAND KHASRA NO. 224 AND 497 KA, SITUATED AT VILL-BASHA, PARGANA-MAHONA, TEH-B.K.T. DISTT-LUCKNOW.
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : SMT DOLLY JINDAL WIFE OF VIPIN JINDAL
 Second Party : BUILDIA CONSTRUCTION PVT LTD THROUGH DIRECTOR
 Stamp Duty Paid By : BUILDIA CONSTRUCTION PVT LTD THROUGH DIRECTOR
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 8,00,000
 (Eight Lakh only)



STAMP PAPER USED

Sub-Registrar (B.K.T.)
Lucknow. (U.P.)

13/08/2015

Please write or type below this line.



Dolly

For Buildia Construction Pvt. Ltd.
Director

WN 0001958168

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 057414

BF 057414

04 Aug 2015

मालियत -रु० 1,22,86,238/-
स्टाम्प -रु० 8,61,000/-
परगना - महोना

“निर्माण-अनुबन्ध पत्र”

1. भूमि का प्रकार - आवासीय
2. परगना - महोना (कोड नं०-102)
3. ग्राम - बसहा (वी कोड-0132)

Dely

For Buildia Construction Pvt. Ltd.

A. J. Singh

Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 057415

BF 057415

0-6 123-2016

(2)

4. भूमि का विवरण - भूमि खसरा संख्या-224, 497क (सम्पूर्ण),
5. मापन की इकाई - वर्गमीटर
6. भूमि का क्षेत्रफल - 2402.359 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति-(परिशिष्ट के अनुसार)
- मुख्य मार्ग कुर्सी रोड पर स्थित है।
8. भूमि का प्रकार - भूमि

चौहद्दी

पूरुब	:	खेत दीगर शख्स
पश्चिम	:	लखनऊ-कुर्सी मार्ग
उत्तर	:	भूमि रसिक बल्लभ रस्तोगी
दक्षिण	:	आराजी दीगर

For Buildia Construction Pvt. Ltd.

A. H. M.
Director

Daly



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 057416

BF 057416

(3)

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

प्रथम पक्ष का विवरण

श्रीमती डौली जिन्दल पत्नी श्री विपिन जिन्दल, निवासिनी-107, बैवरली पार्क, अपार्टमेंट, न्यू हैदराबाद, लखनऊ, ३०१०।

द्वितीय पक्ष का विवरण

बिल्डिया कान्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, पंजीकृत कार्यालय-सदरपुर करौरा, गोसाईगंज, लखनऊ, द्वारा डायरेक्टर अब्दुल अजीम पुत्र श्री शमीम अहमद, निवासी-ग्राम व पोस्ट-सुईथा कलां, तहसील-शाहगंज, जिला-जौनपुर, ३०१०।

For Buildia Construction Pvt. Ltd.

Sally

A. A. A.
Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 014371

BF 014371

4 AUG 96

(4)

यह निर्माण अनुबन्ध विलेख श्रीमती डौली जिन्दल पत्नी श्री विपिन जिन्दल, निवासिनी-107, बैवरली पार्क, अपार्टमेंट, न्यू हैदराबाद, लखनऊ, उ०प्र०।

.....प्रथम पक्ष

एवम्

बिल्डिया कान्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, पंजीकृत कार्यालय-सदरपुर करौरा, गोसाईगंज, लखनऊ, द्वारा डायरेक्टर अब्दुल अजीम पुत्र श्री शमीम अहमद, निवासी-ग्राम व पोस्ट-सुईथा कलां, तहसील-शाहगंज, जिला-जौनपुर, उ०प्र०

.....बिल्डर्स/द्वितीय पक्ष

के मध्य निष्पादित किया गया है।

For Buildia Construction Pvt. Ltd.

-----5

Deley

Agarwal

Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 057320



(5)

जो कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या-224 व 497क (सम्पूर्ण), कुल क्षेत्रफल-25859 वर्गफिट यानी 2402.359 वर्गमीटर, स्थित ग्राम-बसहा, परगना-महोना, तहसील-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ, की मालिक, कामिल व काबिज है। उक्त भूमि को प्रथम पक्ष ने श्रीमती अर्पणा अग्रवाल से पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किया है, जो कार्यालय उपनिबन्धक बक्शी का तालाब, लखनऊ के अभिलेखों में बही संख्या-1 जिल्द संख्या-4808 के पृष्ठ संख्या-311 से 338 पर क्रमांक सं0-8474 पर दिनांक 07.07.2012 को पंजीकृत है व भू-राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है।

उक्त भूमि प्रथम पक्ष के पूर्ण मालिकाना कब्जे व दखल में मौजूद है और उक्त भूमि समस्त प्रकार के भारों-विवादों जैसे रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की मुकदमा इत्यादि से बरी व पाक-साफ है,

For Buildia Construction Pvt. Ltd.

Deely

Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 0142570

BF 014257

4 AUG 2015

(6)

जिसमें प्रथम पक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई दावेदार या हिस्सेदार नहीं है।

उक्त भूमि प्रथम पक्ष के पूर्ण स्वामित्व व अधिकार में मौजूद है एवं हर प्रकार के विवादों, विक्रय, बन्धक व दान आदि से बरी व पाक साफ है तथा जिसे प्रथम पक्ष को हस्तान्तरित बन्धक, दान आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराना चाहती है परन्तु भवन निर्माण का पूरा ज्ञान व अनुभव नहीं है, द्वितीय पक्ष जो कि आर्थिक सुदृढ़ है एवं उसे भवन निर्माण का पूरा ज्ञान व अनुभव है, ने प्रथम पक्ष के समक्ष भवन निर्माण कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के उक्त प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया है और द्वितीय पक्ष के सहयोग से प्रथम पक्ष बहुमंजिला इमारत निर्माण कराना चाहती है,

For Buildia Construction Pvt. Ltd.

----- 7

Daly

Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 014256

BF 014256
4 AUG 2015

(7)

लिहाजा हम उभयपक्ष निम्नलिखित शर्तों के पाबन्द होते हैं:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि खसरा संख्या-224 व 497क सम्पूर्ण, कुल क्षेत्रफल-25859 वर्गफिट यानी 2402.359 वर्गमीटर, स्थित ग्राम-बसहा, परगना-महोना, तहसील-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ, में आवासीय फ्लैटों का निर्माण करायेगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि पर प्रस्तावित बिल्डिंग में ग्राउण्ड फ्लोर पर पार्किंग, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, चतुर्थ तल, पंचम तल एवं छठा तल का निर्माण करायेगा, जिसमें प्रत्येक तल पर बारह फ्लैट बनाये जायेंगे।
3. यह कि सक्षम अधिकारी द्वारा पास किये गया प्रस्तावित बिल्डिंग का नक्शे में निर्धारित कुल निर्मित क्षेत्रफल का प्रथम

For Buildia Construction Pvt. Ltd.

----- 8

Dolly

[Signature]
Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 185158

BF 185158

-4 AUG 2023

(8)

- पक्ष को 40 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष को 60 प्रतिशत के हिसाब से फ्लैटों का बंटवारा किया जायेगा।
4. यह कि उपरोक्त बहुमंजिला इमारत का नाम "जिन्दल्स बिल्डियां ग्लैक्सी" रखा जायेगा।
 5. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर अपनी लागत से आवासीय काम्पलेक्स का निर्माण करायेगा, जिसके निर्माण का सारा व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा। प्रथम पक्ष बिल्डिंग निर्माण में व्यय से कोई वास्ता व सरोकार न होगा।
 6. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा बिल्डर्स एग्रीमेन्ट पंजीकरण की तिथि से तीस माह में कुल प्रस्तावित काम्पलेक्स का निर्माण करा लिया जायेगा, परन्तु जिस तारीख से भूमि पर कब्जा द्वितीय पक्ष को सौंपा जायेगा, उस तारीख से निर्माण का समय माना जायेगा।

[Signature]

Director

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 185159

BF 185159

(9)

7. यह कि प्रथम पक्ष मुबलिग रूपया 80,00,000/- (रूपया अस्सी लाख) बतौर एडवांस द्वितीय पक्ष से ले रहा है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-
- (1) रूपया-25,00,000/- जरिये चेक संख्या-259657 दिनांकित 19.03.2015 अदाता इण्डसइण्ड बैंक, शाखा-विकास नगर, लखनऊ।
 - (2) रूपया-12,50,000/- जरिये चेक संख्या-507656 अदाता यस बैंक, शाखा-तुलसी काम्पलेक्स, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
 - (3) रूपया-12,50,000/- जरिये चेक संख्या-507657 अदाता यस बैंक, शाखा-तुलसी काम्पलेक्स, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

For Buildia Construction Pvt. Ltd.

Daly

Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 185160

BF 185160

(10)

- (4) रुपया-10,00,000/- जरिये चेक संख्या-507658 अदाता यस बैंक, शाखा-तुलसी काम्पलेक्स, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
- (5) रुपया-9,00,000/- जरिये चेक संख्या-507659 अदाता यस बैंक, शाखा-तुलसी काम्पलेक्स, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
- (6) रुपया-11,00,000/- विभिन्न तिथियों में प्राप्त किया।

जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष को स्वीकार व मान्य है तथा उक्त एडवांस धनराशि प्रथम पक्ष के हिस्से में समायोजित की जायेगी, इसमें प्रथमपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

For Buildia Construction Pvt. Ltd.

[Signature]
Director

----- 11

[Signature]
Delly



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 057965

BF 057965

04 AUG 2015

(11)

8. यह कि प्रस्तावित आवासीय इमारत में कॉमन एरिया में लाइट व्यवस्था हेतु जनरेटर एवं अग्नि शमन यन्त्र की व्यवस्था द्वितीय पक्ष करेगा।
9. यह कि प्रथम पक्ष किसी भी तरह कार्य शुरू हो जाने के पश्चात् कार्य को बाधित नहीं करेगा और यदि वह करता है तो उसकी समस्त लागत व धनराशि द्वितीय पक्ष को देना होगा, इस प्रकार द्वितीय पक्ष भी निर्माण कार्य को नहीं रोकेंगा।
10. यह कि यदि उपरोक्त सम्पत्ति के मालिकाना विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी तत्पश्चात् निर्माण में किसी प्रकार की कोई रुकावट आती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
11. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त प्रस्तावित काम्पलेक्स के निर्माण में

For Buildia Construction Pvt. Ltd.

[Signature]
Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 057964

BF 057964

04 AUG 2013

(12)

सारी सुविधायें प्रदान करने जैसे बिजली, पानी, लिफ्ट आदि का संयोजित निदान करेगा तथा सम्पूर्ण निर्माण मानकानुसार होगा।

12. यह कि प्रस्तावित काम्पलेक्स में पार्किंग की भी व्यवस्था होगी।
13. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त काम्पलेक्स का निर्माण आर0सी0सी0 पद्धति से करायेगा।
14. यह कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी दशा में दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त किये गये मध्यस्थ द्वारा निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा, इसके बावजूद भी यदि वाद नहीं सुलझता है, तो वाद-विवाद का क्षेत्र न्यायालय, लखनऊ के अन्तर्गत होगा।

For Buildia Construction Pvt. Ltd.

[Signature]
Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 648329

06 APR 2015

- 13 -

15. यह कि निर्माण पूरा होने तथा विक्रीत होने के पश्चात यदि दैवी, प्राकृतिक आपदा से यदि बिल्डिंग में कोई क्षति होती है, तो उसे अपनी लागत से पुर्ननिर्माण कराने का अधिकार वर्तमान स्वामी का होगा, परन्तु निर्माण कार्य उच्च कोटि का होगा।
16. यदि कि इस अनुबन्ध विलेख की सभी शर्तें उभयपक्षों उनके वारिसानों, एजेण्टों, प्रतिनिधियों पर समान रूप से प्रभावी होगी।
17. यह कि प्रस्तावित काम्पलेक्स में स्थित फ्लैटों का निर्माण व फिनिशिंग जैसे खिड़कियां, दरवाजे फ्लोरिंग, किचन, आदि का निर्माण द्वितीय पक्ष मानक के अनुसार करेगा।
18. यह कि काम्पलेक्स के निर्माण करते समय यदि किसी प्रकार

Daly

For Buildia Construction Pvt. Ltd.

Director

की कोई दुर्घटना घटना जाती है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी व हर्जाना द्वितीय पक्ष को अदा करना होगा।

19. यह कि उपरोक्त प्रस्तावित काम्पलेक्स का निर्माण कराने में अस्थाई व स्थायी विद्युत कनेक्शन, वाटर बोरिंग, आदि को लगवाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस पर आने वाले खर्च को द्वितीय पक्ष वहन करेगा।
20. यह कि द्वितीय पक्ष सम्पूर्ण प्रस्तावित काम्पलेक्स में कन्शील्ड वायरिंग के साथ-साथ प्रत्येक फ्लैटों के सर्किट निरोधक, प्लम्बरिंग, सीवरेज और समस्त आवश्यक सुविधाओं का निर्माण अपनी पूंजी से करायेगा।
21. यह कि उक्त प्रस्तावित काम्पलेक्स का निर्माण कार्य होने व विक्रीत होने तक द्वितीय पक्ष काम्पलेक्स के रख रखाव का समस्त कार्य देखेगा और काम्पलेक्स में फ्लैट्स के क्रेताओं की एक सोसाइटी का निर्माण कर उक्त सोसाइटी को समस्त रख-रखाव सौंप दिया जायेगा, यदि प्रथम पक्ष किसी भी परिस्थितियों में पूर्व लिये गये शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य में कोई बाधा/हस्तक्षेप नहीं करेगा, किन्तु शर्तों के अनुसार निर्माण नहीं होता है, तो प्रथम पक्ष पूर्ण रूप से हस्तक्षेप कर सकता है।
22. यह कि प्रस्तावित काम्पलेक्स में लिफ्ट लगना अनिवार्य होगा, जो कि काम्पलेक्स की छत तक ले जायेगा, जिसका व्यय द्वितीय पक्ष वहन करेगा।
23. यह कि प्रस्तावित काम्पलेक्स में बने फ्लैटों में फिनीशिंग एक समान होगी :-
 - (क) समस्त निर्माण कार्य आर0सी0सी0 पद्धति पर होगा।
 - (ख) प्लास्टर, फ्लोरिंग व पेण्ट आदि का कार्य काम्पलेक्स के अन्दर व बाहर।
 - (ग) दरवाजे व खिड़की व उसकी पालिश तथा सभी बिजली की वायरिंग फ्यूज डिब्बे काम्पलेक्स की क्षमता के अनुरूप तथा सभी बाथरूम के कार्य तथा पूर्ण प्रस्तावित

काम्पलेक्स में पानी की व्यवस्था व वाहनों की पार्किंग व किचन का पत्थर, वाश बेसिंग, शेल्फ फ्लोरिंग आदि।

24. यह कि आज दिनांक से पूर्व जो भी देनदारियों/सरकारी बकाया होंगे, उनको जमा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
25. यह कि प्रस्तावित आवासीय काम्पलेक्स की सबसे ऊपरी छत पर प्रथम पक्ष का अधिकार होगा। द्वितीय पक्ष भविष्य में छत पर कोई भागीदारी या हकदारी या दावा नहीं करेगा।
26. यह कि द्वितीय पक्ष बिल्डिंग निर्माण करने हेतु पूर्णतया अधिकृत है और बिल्डिंग निर्माण के लिए आर्किटेक्ट, इन्जीनियर, मजदूर आदि के देनदारियों के भुगतान की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
27. यह कि इस निर्माण अनुबन्ध पत्र में वर्णित भूमि अर्द्धनगरीय क्षेत्र के ग्राम-बसहा की भूमि है एवं उक्त वर्णित भूमि मुख्य मार्ग लखनऊ-कुर्सी रोड पर स्थित है, जिसकी दर श्रीमान् जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी वर्तमान मूल्यांकन सूची के अनुसार मु0 6200/- रूपया प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। उक्त भूमि कार्नर या दो समान्तर मार्गों पर या पार्क के सामने पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार उक्त भूमि के क्षेत्रफल-2402.359 वर्गमीटर में से क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर की सरकारी मालियत मु0 6200/- रूपया प्रति वर्गमीटर की दर से मुबलिंग रूपया 62,00,000/- होती है एवं शेष क्षेत्रफल 1402.359 वर्गमीटर की मालियत निर्धारित दर में 30 प्रतिशत की कमी करते हुए मु0 4340/- रूपया प्रति वर्गमीटर की दर से मुबलिंग रूपया 60,86,238/- होती है इस प्रकार उक्त भूमि की कुल सरकारी मालियत मु0 रूपया-1,22,86,238/- होती है, जिस पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-स.वि.क.नि.5-2756/11-2008-500(165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से मुबलिंग-8,61,000/- रूपया का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है, जिसमें से रूपया-8,00,000/- का

Delhi

Director
Director

स्टाम्प शुल्क ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र संख्या-IN-UP01296411440396N दिनांक 13.08.2015 के माध्यम से एवं रूपया-61,000/- का स्टाम्प शुल्क जनरल स्टाम्प के माध्यम से अदा किया गया है।

अनुबन्धित भूमि का विवरण

भूमि खसरा संख्या-224 व 497क (सम्पूर्ण), कुल क्षेत्रफल-25859 वर्गफिट यानी 2402.359 वर्गमीटर, स्थित ग्राम-बसहा, परगना-महोना, तहसील-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ।

अतः यह निर्माण अनुबन्ध विलेख उभय पक्ष ने अपने-अपने दिमाग की सही व दुरुस्त हालत में रुबरु गवाहान स्वस्थ चित्त व प्रसन्न मन से बिना किसी जोर व दबाव नाजायज के निष्पादित किया ताकि प्रमाण रहे व आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में काम आवे।
लखनऊ

दिनांक : 13.08.2015

1. गवाह 


नाम : Hetal Anand S/o Belal

पुत्र Anand

पता : FS 37/2E Shrawari

Nagar Satgaur Road

LKO

2. गवाह 


नाम : Mohd. Moazzam

पुत्र s/o Fakhar Khan

पता Areshpur


Dist. Jaunpur

ह0 प्रथम पक्ष


(श्रीमती डौली जिन्दल)

ह0 द्वितीय पक्ष/डायरेक्टर

For Buildia Construction Pvt. Ltd.


Director
(अब्दुल अजीम)

बिल्डिया कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0


टाइपकर्ता



(अनिल बालाजी)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ

प्रालेखक



(नियाज अहमद)

एडवोकेट

कलेक्ट्रेट, लखनऊ

मो0नं0-9935393834

सम्पत्ति का मानचित्र

भूमि खसरा संख्या-224 व 497क (सम्पूर्ण), कुल क्षेत्रफल-25859 वर्गफिट यानी 2402.359 वर्गमीटर, स्थित ग्राम-बसहा, परगना-महोना, तहसील-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ।

प्रथम पक्ष का विवरण

श्रीमती डौली जिन्दल पत्नी श्री विपिन जिन्दल, निवासिनी-107, बैवरली पार्क, अपार्टमेंट, न्यू हैदराबाद, लखनऊ, उ0प्र0।


द्वितीय पक्ष का विवरण

बिल्डिया कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, पंजीकृत कार्यालय-सदरपुर करौरा, गोसाईगंज, लखनऊ, द्वारा डायरेक्टर अब्दुल अजीम पुत्र श्री शमीम अहमद, निवासी-ग्राम व पोस्ट-सुईथा कलां, तहसील-शाहगंज, जिला-जौनपुर, उ0प्र0।


चौहद्दी

पूरुब	:	खेत दीगर शरक्स
पश्चिम	:	लखनऊ-कुर्सी मार्ग
उत्तर	:	भूमि रसिक बल्लभ रस्तोगी
दक्षिण	:	आराजी दीगर

भूमि खसरा
संख्या-224 व
497क (सम्पूर्ण)



For Buildia Construction Pvt. Ltd.


प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर


द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

